

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरातना कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(AMiniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



**CIN- U10102MP1985GOI003160**

**An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company**

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcl.in](http://www.nclcl.in)

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/309

दिनांक - 28/09/2017

प्रेस विज्ञप्ति

### स्वच्छता जागरूकता हेतु एनसीएल निगाही में 'विशेष स्वच्छता पखवाड़ा' का आयोजन

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) का निगाही क्षेत्र 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2017 के बीच 'विशेष स्वच्छता पखवाड़ा' का आयोजन कर क्षेत्र के आस-पास के लोगों एवं अपने अधिकारियों-कर्मचारियों में स्वच्छता जागरूकता का संदेश फैला रहा है। पखवाड़े के आयोजन के क्रम में बुधवार को क्षेत्र की टीम ने स्वच्छता जागरूकता फैलाने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए।

सबसे पहले क्षेत्र के महाप्रबंधक (खान) श्री हरीश दुहान ने महाप्रबंधक कार्यालय में क्षेत्र के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं श्रमिक संघ प्रतिनिधियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। इसके बाद श्री दुहान के नेतृत्व में निगाही क्षेत्र की टीम ने श्रमदान कर निगाही क्षेत्र में मुख्य द्वार के आस-पास झाड़ू लगाकर व्यापक सफाई की।

टीम ने निगाही क्षेत्र के कंपोजिट भवन में पौधरोपण भी किया और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। साथ ही, निगाही क्षेत्र में स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च स्तर को

बनाए रखने के लिए स्वच्छता प्रहरी भी बनाए गए, जो कि निगाही क्षेत्र में किए जा रहे सफाई कार्यों की नियमित निगरानी करेंगे।

इन सभी कार्यों के आयोजन में निगाही के कार्मिक विभाग की स्टाफ अधिकारी श्रीमती कविता गुप्ता एवं उप प्रबन्धक श्री कबीर, श्री लक्ष्मीनारायण एवं श्री एस के पाण्डेय, सिविल विभाग के श्री नाथ, श्री पी एन झा, और पर्यावरण विभाग के श्री ए के गुप्ता, श्री केशव शर्मा ने अपना योगदान दिया।

महाप्रबंधक (का./जनसंपर्क)